



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1173]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 27, 2017/वैशाख 7, 1939

No. 1173]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2017/VAISAKHA 7, 1939

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2017

का.आ. 1323(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 156(अ) तारीख 12 जनवरी, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है।), से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, बिहार राज्य के जिला रोहतास में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण में तारीख 01 फरवरी, 2017 को और हिन्दुस्तान में तारीख 01 फरवरी, 2017 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा उसपर विचार किया गया और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया गया, तदनुसार आदेश पारित किए गए हैं;

उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण, में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि आत्यंतिक रूप से सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

बिहार राज्य में विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए रोहतास जिले के भीतर आने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | थाना नं. | खसरा सं. | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | भू-स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम |
|----------|---------------|----------|----------|----------------|-----------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | उत्तिमपुरहरहा | 104 | 4 | निजी | कृषि | 0.0574 | दुलहिन तलुकराज कुंअर पति गौरी प्रसाद सिंह जाति— राजपूत, निवासी— गजराढ़, थाना— सासाराम, जिला— रोहतास। |
| | | | 5 | सरकारी | कृषि | 0.0283 | अनावाद सर्व साधारण। |
| | | | 6 | सरकारी | कृषि | 0.0850 | अनावाद बिहार सरकार। |
| | | | 36 | सरकारी | कृषि | 0.0116 | अनावाद बिहार सरकार। |
| | | | 38 | सरकारी | कृषि | 0.1093 | बिहार सरकार नगर विभाग। |
| 2. | चकिया | 157 | 1518 | निजी | कृषि | 0.0167 | रामपति वो रामरतन वो बदन वो सिपाही वो दुखित वो वीरा वो पिता दीपा अंश समान जाति— कहार, निवासी— पहलेजा। |

[फा. सं. 2013/एलएमएल/12/7/ईसी/851]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं—1)

MINISTRY OF RAILWAY

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2017

S.O. 1323(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 156(E), dated the 12th January 2017, published in Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, sub section (ii) (hereafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intension to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor, in the District of Rohtas in the State of Bihar;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Dainik Jagran, dated the 01st February 2017 and Hindustan, dated the 01st February 2017 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same has been considered and allowed by the competent authority, accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without struture falling within the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Rohtas in the State of Bihar.

| Sl. No. | Name of Village | Thana No. | Plot No. | Type of Land | Nature of Land | Area in Hactare | Name of Land Owner/ Interested person |
|---------|-----------------|-----------|----------|--------------|----------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Uttimpurharha | 104 | 4 | Private | Agriculture | 0.0574 | Dulhin Talukraj Kunvar W/o Gauri Prasad Singh Caste- Rajpoot, Village- Gajrarh, Thana- Sasaram, District- Rohtas. |
| | | | 5 | Government | Agriculture | 0.0283 | Anawad Sarv Sadharan. |
| | | | 6 | Government | Agriculture | 0.0850 | Anawad Bihar Sarkar. |
| | | | 36 | Government | Agriculture | 0.0116 | Anawad Bihar Sarkar. |
| | | | 38 | Government | Agriculture | 0.1093 | Irrigation Department Government of Bihar. |
| 2. | Chakiya | 157 | 1518 | Private | Agriculture | 0.0167 | Rampati, Ramratan, Badan, Sipahi, Dukhit, vira S/o Deepa Ansha Saman Caste- Kahar, Village- Pahleja. |

[F. No. 2013/LML/12/7/EC/851]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land & Amenities-I)